

## प्रेस नोट

दिनांक: 10 सितंबर 2018

### यूपीडा वेबसाइट के नवीनीकृत होम पेज का उद्घाटन

दिनांक 10 सितंबर 2018 को पर्यटन भवन में यूपीडा वेबसाइट के पुनर्निर्मित होम पेज का उद्घाटन माननीय मंत्री, औद्योगिक विकास श्री सतीश महाना के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ | वेबसाइट को नया प्रारूप देने के पीछे उद्देश्य यह है कि इसे अधिक यूज़र-फ्रेंडली बनाया जाए और सोशल मीडिया के ज़रिए विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियां अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सकें | यूपीडा द्वारा इन दिनों पूर्वाञ्चल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एवं डिफेंस कॉरीडोर निर्माण कार्य की दिशा में तीव्र गति से काम किया जा रहा है | इस अवसर पर अवगत कराते हुए यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने यूपीडा द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला और साथ ही यह भी बताया कि यूपीडा की वेबसाइट [www.upeida.in](http://www.upeida.in), सोशल मीडिया के माध्यम से इन कार्यों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की दिशा में अग्रसर है | उन्होंने विश्वास जताया कि नई वेबसाइट, विभाग को और अधिक लोगों से जोड़ने में सक्षम होगी | उद्घाटन अवसर पर प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, श्री आर.के. सिंह तथा यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त नियंत्रक, मुख्य अभियंता एवं मीडिया सलाहकार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे |

नोट - विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट [www.upeida.in](http://www.upeida.in) का अवलोकन करें

**PRESS NOTE**